

परिशिष्ट सारणी IV.1: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, एक नज़र में

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
		2022	2023*	2021-22	2022-23*
1	2	3	4	5	6
1	तुलन-पत्र परिचालन				
	1.1 कुल देयताएं/आस्तियां	2,16,74,688	2,43,18,174	10.7	12.2
	1.2 जमा राशियां	1,71,80,645	1,90,68,284	10.3	11.0
	1.3 उधारियां	16,63,348	19,57,222	12.9	17.7
	1.4 ऋण तथा अग्रिम	1,21,98,769	1,43,19,355	12.9	17.4
	1.5 निवेश	57,79,131	64,36,540	6.7	11.4
	1.6 तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (तुलन पत्र की देयताओं के प्रतिशत के रूप में)	132.8	144.8		
	1.7 कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	7,29,114	6,65,899	18.8	-8.7
2.0	लाभप्रदता				
	2.1 निवल लाभ	1,82,032	2,63,214		
	2.2 आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) (प्रतिशत) **	0.9	1.2		
	2.3 इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) (प्रतिशत) **	9.9	11.6		
	2.4 निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) (प्रतिशत) **	3.4	3.8		
3.0	पूंजी पर्याप्तता				
	3.1 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) @	16.8	17.3		
	3.2 स्तर I पूंजी (कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में) @	87.4	86.8		
	3.3 सीआरएआर (स्तर I) (प्रतिशत) @	14.7	15.0		
4.0	आस्ति गुणवत्ता				
	4.1 सकल एनपीए	7,43,640	5,71,546	-11.0	-23.1
	4.2 निवल एनपीए	2,04,231	1,35,333	-20.9	-33.7
	4.3 सकल एनपीए अनुपात (सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए)	5.8	3.9		
	4.4 निवल एनपीए अनुपात (निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए)	1.7	0.9		
	4.5 प्रावधान कवरेज अनुपात (प्रतिशत)**	69.0	74.1		
	4.6 गिरावट अनुपात (प्रतिशत)	2.7	1.8		
5.0	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन				
	5.1 बैंक ऋण	1,18,91,314	1,36,75,235	9.6	15.0
	5.2 कृषि	14,61,719	16,87,191	9.9	15.4
	5.3 उद्योग	31,56,067	33,36,722	7.5	5.7
	5.4 सेवाएं	30,11,975	36,08,574	8.7	19.8
	5.5 वैयक्तिक ऋण	33,86,982	40,85,168	12.6	20.6
6.0	प्रायोगिकीय विकास				
	6.1 क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या (लाख में)	736	853	18.7	15.9
	6.2 डेबिट कार्डों की कुल संख्या (लाख में)	9,177	9,613	2.2	4.8
	6.3 एटीएम की संख्या	2,51,740	2,58,534	5.5	2.7
7.0	ग्राहक सेवाएं				
	7.1 वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या	3,04,496 ^	2,34,690 ^^	0.5	-22.9
	7.2 वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या ##	3,17,514	2,45,391	-5.2	-22.7
	7.2 में से वर्ष के दौरान समाधान/निपटान की गई शिकायतों की कुल संख्या	3,11,067	2,40,453	-3.9	-22.7
	7.2 में से वर्ष के दौरान समाधान/निपटान की गई शिकायतों का प्रतिशत	98.0	98.0		
8.0	वित्तीय समावेशन				
	8.1 ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	71	75.1		
	8.2 खोली गई नई बैंक शाखाओं की संख्या	3,254	5,308	5.3	63.1
	8.3 गांवों में खोले गए बैंकिंग आउटलेट की संख्या (कुल)	22,74,236	16,81,957#	82.2	-25.5

टिप्पणियां: 1. * : अनंतिम।

2. ** : अप्रत्यक्ष विवरणियों के आधार पर।

3. *** : प्रतिशत घट-बढ़ बिल्कुल तुलनीय नहीं है क्योंकि वर्ष 2020-21 का डेटा जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक का है जबकि 2021-22 का डेटा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का है।

4. ^ : सीआरपीसी में निपटाई गई 1,13,688 शिकायतें शामिल नहीं हैं।

5. ^^ : सीआरपीसी में निपटाई गई 4,68,854 शिकायतें शामिल नहीं हैं।

6. ## : निपटाई गई शिकायतों में वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें और पिछले वर्ष से अग्रसारित शिकायतें शामिल हैं।

7. # : चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के कारण उल्लेखनीय कमी आई है।

8. @ : आंकड़े बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार हैं।

9. @@ : दिसंबर 2021 से चुनिंदा एससीबी द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए क्रेडिट डेटा को समायोजित किया जाता है।

10. : प्रतिशत घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि राशियों को लाख/ करोड़ रुपये में पूर्णांकित किया गया है।